

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 329]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 29 जुलाई 2019—श्रावण 7, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 2019

क्र. 12706-211-इक्कीस-अ-(प्रा.) अधि. .—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 26 जुलाई 2019 को राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ८ सन् २०१९

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-४) अधिनियम, २०१९

[दिनांक २६ जुलाई, २०१९ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २९ जुलाई, २०१९ को प्रथमबार प्रकाशित की गईं]

वित्तीय वर्ष २०१९-२०२० की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-४) अधिनियम, २०१९ है.

वित्तीय वर्ष २०१९-२० के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये २३,३६,०५,८८,८२,००० का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग मध्यप्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, २०१९ (क्रमांक-५ सन् २०१९) की अनुसूची के कॉलम ३ में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुये, रुपये दो लाख तैंतीस हजार छः सौ पांच करोड़, अठासी लाख, बयासी हजार मात्र होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०१९-२०२० के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

(आंकड़े रुपयों में)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां			
		विधान सभा द्वारा मतदत्त रुपये	संचित निधि पर भारत रुपये	योग रुपये	
	भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व	०	१,४४,३२,०७,४८,०००	१,४४,३२,०७,४८,०००
	भारत विनियोग-लोक ऋण	पूंजी	०	१,४८,०३,३३,७३,०००	१,४८,०३,३३,७३,०००
००१.	सामान्य प्रशासन	राजस्व	५,८४,४०,२६,०००	६३,५७,०८,०००	६,४७,९७,३४,०००
		पूंजी	८२,६५,०८,०००	०	८२,६५,०८,०००
००२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	९९,६८,२८,०००	०	९९,६८,२८,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
००३.	पुलिस	राजस्व ६८,२८,३४,०३,००० पूंजी ७,११,१८,३३,०००	१,५२,००,००० ०	६८,२९,८६,०३,००० ७,११,१८,३३,०००
००४.	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व ५६,६२,०८,००० पूंजी ५०,००,०००	१,८०,००० ०	५६,६३,८८,००० ५०,००,०००
००५.	जेल	राजस्व ४,०४,६९,७१,००० पूंजी २५,४७,००,०००	० ०	४,०४,६९,७१,००० २५,४७,००,०००
००६.	वित्त	राजस्व १,४४,३२,२३,३६,००० पूंजी १,९०,७०,०३,०००	१,३०,९८,५३,००० ०	१,४५,६३,२१,८९,००० १,९०,७०,०३,०००
००७.	वाणिज्यिक कर	राजस्व ३४,५६,९५,४१,०००	१९,६०,०००	३४,५७,१५,०१,०००
००८.	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व १९,०७,०४,०८,००० पूंजी १,७१,४०,०१,०००	२,०६,३४,००० ०	१९,०९,१०,४२,००० १,७१,४०,०१,०००
००९.	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व २४,२८,२१,००० पूंजी ३,६०,००,०००	० ०	२४,२८,२१,००० ३,६०,००,०००
०१०.	वन	राजस्व १८,३३,३६,६९,००० पूंजी ९,४४,४०,९७,०००	९०,००,००० ०	१८,३४,२६,६९,००० ९,४४,४०,९७,०००
०११.	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	राजस्व ३,६७,२६,३३,००० पूंजी ६,४४,७४,०४,०००	० ०	३,६७,२६,३३,००० ६,४४,७४,०४,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
०१२.	ऊर्जा			
	राजस्व	७३,४५,२२,९१,०००	७,२०,१२,५९,०००	८०,६५,३५,५०,०००
	पूंजी	१७,६९,६७,०३,०००	०	१७,६९,६७,०३,०००
०१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास			
	राजस्व	२,२५,६७,३९,२१,०००	४०,००,०००	२,२५,६७,७९,२१,०००
	पूंजी	१,०००	०	१,०००
०१४.	पशुपालन			
	राजस्व	११,५५,२८,६८,०००	१०,००,०००	११,५५,३८,६८,०००
	पूंजी	१७,१८,००,०००	०	१७,१८,००,०००
०१५.	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं			
	राजस्व	२,०००	०	२,०००
०१६.	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास			
	राजस्व	९९,७८,०५,०००	१४,९५,०००	९९,९३,००,०००
	पूंजी	१,१५,००,०००	०	१,१५,००,०००
०१७.	सहकारिता			
	राजस्व	१३,६२,५९,८०,०००	६०,०००	१३,६२,६०,४०,०००
	पूंजी	११,४८,८६,४३,०००	०	११,४८,८६,४३,०००
०१८.	श्रम			
	राजस्व	९,२५,९४,५६,०००	२,७१,०००	९,२५,९७,२७,०००
०१९.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण			
	राजस्व	७२,६१,९९,३१,०००	२५,००,०००	७२,६२,२४,३१,०००
	पूंजी	२,८४,८०,८४,०००	०	२,८४,८०,८४,०००
०२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी			
	राजस्व	६,११,२४,९०,०००	१,००,००,०००	६,१२,२४,९०,०००
	पूंजी	३४,२८,९२,६६,०००	०	३४,२८,९२,६६,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
०२१.	लोक सेवा प्रबंधन			
	राजस्व	७६,३९,५०,०००	०	७६,३९,५०,०००
	पूंजी	५,००,००,०००	०	५,००,००,०००
०२२.	नगरीय विकास एवं आवास			
	राजस्व	६९,९५,९७,४४,०००	५०,००,०००	६९,९६,४७,४४,०००
	पूंजी	१३,१५,७७,१७,०००	१५,००,००,०००	१३,३०,७७,१७,०००
०२३.	जल संसाधन			
	राजस्व	११,४८,३८,३७,०००	०	११,४८,३८,३७,०००
	पूंजी	५५,६५,२६,३३,०००	१,१६,००,०००	५५,६६,४२,३३,०००
०२४.	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल.			
	राजस्व	१२,२२,३९,१५,०००	०	१२,२२,३९,१५,०००
	पूंजी	६९,२९,६९,०५,०००	३,२०,००,०००	७२,४९,६९,०५,०००
०२५.	खनिज साधन			
	राजस्व	४७,७०,५१,०००	७,०२,०५,००,०००	७,४९,७५,५१,०००
	पूंजी	३,०८,५०,००,०००	०	३,०८,५०,००,०००
०२६.	संस्कृति			
	राजस्व	१,८३,८३,१९,०००	१,००,०००	१,८३,८४,१९,०००
	पूंजी	४२,३०,०३,०००	०	४२,३०,०३,०००
०२७.	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)			
	राजस्व	१,४७,७८,९३,६१,०००	०	१,४७,७८,९३,६१,०००
	पूंजी	५,७०,६७,३५,०००	०	५,७०,६७,३५,०००
०२८.	राज्य विधान मंडल			
	राजस्व	९६,३९,२९,०००	६१,८५,०००	९७,०१,१४,०००
०२९.	विधि और विधायी कार्य			
	राजस्व	१७,६०,२१,०९,०००	१,८३,१६,८४,०००	१९,४३,३७,९३,०००
	पूंजी	१,८७,०४,००,०००	०	१,८७,०४,००,०००
०३०.	ग्रामीण विकास			
	राजस्व	१०,६५,५५,५४,०००	४,८१,०००	१०,६५,६०,३५,०००
	पूंजी	२९,८७,५०,०४,०००	०	२९,८७,५०,०४,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
०३१.	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी			
	राजस्व	८७,७९,४९,०००	६०,०००	८७,८०,०९,०००
	पूंजी	१,७०,९४,००,०००	०	१,७०,९४,००,०००
०३२.	जनसंपर्क			
	राजस्व	४,४७,५७,८५,०००	१०,०००	४,४७,५७,९५,०००
	पूंजी,	२,५०,००,०००	०	२,५०,००,०००
०३३.	आदिम जाति कल्याण			
	राजस्व	५९,८६,१४,०७,०००	५,५०,०००	५९,८६,१९,५७,०००
	पूंजी,	१५,०६,०९,९६,०००	०	१५,०६,०९,९६,०००
०३४.	सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण			
	राजस्व	८,६३,१९,५१,०००	१,८०,०००	८,६३,२१,३१,०००
०३५.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम			
	राजस्व	७,८३,४३,३३,०००	१,०००	७,८३,४३,३४,०००
	पूंजी	३,३८,५०,०३,०००	०	३,३८,५०,०३,०००
०३६.	परिवहन			
	राजस्व	९२,३०,३७,०००	२,४०,०००	९२,३२,७७,०००
	पूंजी	२०,००,०१,०००	०	२०,००,०१,०००
०३७.	पर्यटन			
	राजस्व	१,२३,३३,६७,०००	१,२०,०००	१,२३,३४,८७,०००
	पूंजी	१,०६,००,०२,०००	०	१,०६,००,०२,०००
०३८.	आयुष			
	राजस्व	४,५८,२०,२३,०००	१०,००,०००	४,५८,३०,२३,०००
	पूंजी	२३,२०,०१,०००	०	२३,२०,०१,०००
०३९.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण			
	राजस्व	१५,३८,४५,५६,०००	१,२५,०००	१५,३८,४६,८१,०००
	पूंजी	२,००,०५,०००	०	२,००,०५,०००
०४०.	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)			
	राजस्व	२९,६१,४०,७१,०००	३०,००,०००	२९,६१,७०,७१,०००
	पूंजी	३,७१,७५,९४,०००	०	३,७१,७५,९४,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
०४१.	सिंहस्थ २०१६ से संबंधित व्यय			
	राजस्व	१,०००	०	१०००
०४२.	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास			
	राजस्व	१,१५,४३,५०,०००	१०००	१,१५,४३,५१,०००
	पूंजी	१८,९९,०२,०००	०	१८,९९,०२,०००
०४३.	खेल और युवा कल्याण			
	राजस्व	१,४०,९५,१०,०००	५,००,०००	१,४१,००,१०,०००
	पूंजी	५९,२७,३२,०००	०	५९,२७,३२,०००
०४४.	उच्च शिक्षा			
	राजस्व	१९,११,९०,७८,०००	१०,००,०००	१९,१२,००,७८,०००
	पूंजी	४,३०,८६,००,०००	०	४,३०,८६,००,०००
०४५.	लघु सिंचाई निर्माण कार्य			
	राजस्व	७६,४१,३०,०००	०	७६,४१,३०,०००
	पूंजी	८६,४५,३९,०००	४,००,०००	८६,४९,३९,०००
०४६.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी			
	राजस्व	१,८५,७१,८९,०००	०	१,८५,७१,८९,०००
	पूंजी	६१,००,०३,०००	०	६१,००,०३,०००
०४७.	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार			
	राजस्व	१२,९१,९८,८०,०००	६,००,०००	१२,९२,०४,८०,०००
	पूंजी	३,७४,०८,०३,०००	०	३,७४,०८,०३,०००
०४८.	नर्मदा घाटी विकास			
	राजस्व	१७,६४,६६,०००	०	१७,६४,६६,०००
	पूंजी	३३,०४,८६,२१,०००	३५,००,०००	३३,०५,२१,२१,०००
०४९.	अनुसूचित जाति कल्याण			
	राजस्व	१२,२१,५०,२८,०००	१०,००,०००	१२,२१,६०,२८,०००
	पूंजी	२,२८,२०,०३,०००	०	२,२८,२०,०३,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
०५०.	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण			
	राजस्व	९,९१,३०,६२,०००	१,२०,०००	९,९१,३१,८२,०००
	पूंजी	१,००,००,००,०००	०	१,००,००,००,०००
०५१.	अध्यात्म			
	राजस्व	८८,३२,८८,०००	५०,०००	८८,३३,३८,०००
	पूंजी	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
०५२.	चिकित्सा शिक्षा			
	राजस्व	१२,९९,३६,०५,०००	०	१२,९९,३६,०५,०००
	पूंजी	१०,१०,४०,३४,०००	०	१०,१०,४०,३४,०००
०५३.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता			
	राजस्व	२,६९,३८,६६,३६,०००	०	२,६९,३८,६६,३६,०००
	पूंजी	१,३६,८०,०१,०००	०	१,३६,८०,०१,०००
०५४.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा			
	राजस्व	१,६०,९२,१६,०००	०	१,६०,९२,१६,०००
०५५.	महिला एवं बाल विकास			
	राजस्व	५१,६२,०३,५७,०००	१५,००,०००	५१,६२,१८,५७,०००
	पूंजी	१,३०,५२,०८,०००	०	१,३०,५२,०८,०००
०५६.	कुटीर एवं ग्रामोद्योग			
	राजस्व	१,६८,०७,१७,०००	६०,०००	१,६८,०७,७७,०००
	पूंजी	२,०१,६०,०००	०	२,०१,६०,०००
०५७.	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें			
	पूंजी	१,०००	०	१,०००
०५८.	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय			
	राजस्व	२३,८२,९८,२७,०००	०	२३,८२,९८,२७,०००
	पूंजी	१,८०,००,०००	०	१,८०,००,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
०५९.	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें	पूंजी १४,००,००,००,०००	०	१४,००,००,००,०००
०६०.	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	राजस्व ४४,६५,००,००० पूंजी २,८७,५८,३३,०००	० ०	४४,६५,००,००० २,८७,५८,३३,०००
०६१.	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	राजस्व २,७३,०८,००० पूंजी १०,०००	० ०	२,७३,०८,००० १०,०००
०६२.	पंचायत	राजस्व २,११,४०,७७,०००	७२,०००	२,११,४१,४९,०००
०६३.	अल्प संख्यक कल्याण	राजस्व २७,२३,६८,००० पूंजी ६,००,००,०००	० ०	२७,२३,६८,००० ६,००,००,०००
०६४.	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व ७४,७६,११,८५,००० पूंजी ५७,१७,३०,०००	६,०२,१७,००,००० ०	८०,७८,२८,८५,००० ५७,१७,३०,०००
०६५.	विमानन	राजस्व ३७,२४,४५,००० पूंजी ७०,५०,०१,०००	० ०	३७,२४,४५,००० ७०,५०,०१,०००
०६६.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व ७,६१,७९,८१,००० पूंजी २६,७४,०२,०००	० ०	७,६१,७९,८१,००० २६,७४,०२,०००
०६७.	लोक निर्माण कार्य-भवन	राजस्व ६,७०,८८,९५,००० पूंजी १,७२,३०,०३,०००	३,००,००,००० ०	६,७३,८८,९५,००० १,७२,३०,०३,०००
०६८.	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	राजस्व २,७१,२१,९१,०००	०	२,७१,२१,९१,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
०६९.	विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण	राजस्व पूंजी	२४,५१,११,००० ७,००,००,०००	० ०	२४,५१,११,००० ७,००,००,०००
०७०.	प्रवासी भारतीय	राजस्व	९०,९३,०००	०	९०,९३,०००
०७१.	पर्यावरण	राजस्व पूंजी	३५,१४,४२,००० ४०,००,०००	० ०	३५,१४,४२,००० ४०,००,०००
०७२.	आनंद	राजस्व	२,०००	०	२,०००
योग :		राजस्व पूंजी	१६,३७,५९,०७,७४,००० ३,७८,६०,९५,२८,०००	१,६८,४५,९७,०७,००० १,५१,३९,८८,७३,०००	१८,०६,०५,०४,८१,००० ५,३०,००,८४,०१,०००
वृहद-योग :			२०,१६,२०,०३,०२,०००	३,१९,८५,८५,८०,०००	२३,३६,०५,८८,८२,०००

यह विधेयक मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक २१ जुलाई २०१९ को पारित किया गया.

यह धन विधेयक है.

भोपाल :
तारीख जुलाई, २०१९.

अध्यक्ष
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 2019

क्र. 12706-211-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 4) अधिनियम, 2019 (क्रमांक 8 सन् 2019) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 8 OF 2019

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (No. 4) ACT, 2019

[Received the assent of the Governor on the 26th July, 2019; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 29th July, 2019.]

An Act to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the Financial Year 2019-2020.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventieth year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No. 4) Act, 2019.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate inclusive of the sums specified in column (3) of the Schedule to the Madhya Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 2019 (No. 5 of 2019) to the sums of Rs. Two lakh thirty three thousand six hundred five crore eighty eight lakh eighty two thousand only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the Financial Year 2019-2020 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE
(See Section 2 and 3)

Amount in Rupees

(1) No. of Vote	(2) Services & purposes	(3) Sums not exceeding			
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total	
		Rs.	Rs.	Rs.	
..	Charged Appropriation- Interest Payments and Servicing of Debt.	Revenue	0	1,44,32,07,48,000	1,44,32,07,48,000
..	Charged Appropriation- Public Debt.	Capital	0	1,48,03,33,73,000	1,48,03,33,73,000
001.	General Administration	Revenue	5,84,40,26,000	63,57,08,000	6,47,97,34,000
		Capital	82,65,08,000	0	82,65,08,000
002.	Other expenditure pertaining to General Administration Department	Revenue	99,68,28,000	0	99,68,28,000
003.	Police	Revenue	68,28,34,03,000	1,52,00,000	68,29,86,03,000
		Capital	7,11,18,33,000	0	7,11,18,33,000

Short title.

Issue of Rs. 23,36,05,88,82,000 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2019-20.

Appropriation.

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
004.	Other expenditure pertaining to Home Department			
	Revenue	56,62,08,000	1,80,000	56,63,88,000
	Capital	50,00,000	0	50,00,000
005.	Jail			
	Revenue	4,04,69,71,000	0	4,04,69,71,000
	Capital	25,47,00,000	0	25,47,00,000
006.	Finance			
	Revenue	1,44,32,23,36,000	1,30,98,53,000	1,45,63,21,89,000
	Capital	1,90,70,03,000	0	1,90,70,03,000
007.	Commercial Tax			
	Revenue	34,56,95,41,000	19,60,000	34,57,15,01,000
008.	Land Revenue and District Administration			
	Revenue	19,07,04,08,000	2,06,34,000	19,09,10,42,000
	Capital	1,71,40,01,000	0	1,71,40,01,000
009.	Expenditure Pertaining to Revenue Department			
	Revenue	24,28,21,000	0	24,28,21,000
	Capital	3,60,00,000	0	3,60,00,000
010.	Forest			
	Revenue	18,33,36,69,000	90,00,000	18,34,26,69,000
	Capital	9,44,40,97,000	0	9,44,40,97,000
011.	Industrial Policy and Investment Promotion			
	Revenue	3,67,26,33,000	0	3,67,26,33,000
	Capital	6,44,74,04,000	0	6,44,74,04,000
012.	Energy			
	Revenue	73,45,22,91,000	7,20,12,59,000	80,65,35,50,000
	Capital	17,69,67,03,000	0	17,69,67,03,000
013.	Farmer Welfare and Agriculture Development.			
	Revenue	2,25,67,39,21,000	40,00,000	2,25,67,79,21,000
	Capital	1,000	0	1,000
014.	Animal Husbandry			
	Revenue	11,55,28,68,000	10,00,000	11,55,38,68,000
	Capital	17,18,00,000	0	17,18,00,000

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
015.	Externally Aided Projects pertaining to Technical Education and Training Department	Revenue	2,000	0	2,000
016.	Fisherman Welfare and Fisheries Development	Revenue	99,78,05,000	14,95,000	99,93,00,000
		Capital	1,15,00,000	0	1,15,00,000
017.	Co-operation	Revenue	13,62,59,80,000	60,000	13,62,60,40,000
		Capital	11,48,86,43,000	0	11,48,86,43,000
018.	Labour	Revenue	9,25,94,56,000	2,71,000	9,25,97,27,000
019.	Public Health and Family Welfare	Revenue	72,61,99,31,000	25,00,000	72,62,24,31,000
		Capital	2,84,80,84,000	0	2,84,80,84,000
020.	Public Health Engineering	Revenue	6,11,24,90,000	1,00,00,000	6,12,24,90,000
		Capital	34,28,92,66,000	0	34,28,92,66,000
021.	Public Service Management	Revenue	76,39,50,000	0	76,39,50,000
		Capital	5,00,00,000	0	5,00,00,000
022.	Urban Development and Housing	Revenue	69,95,97,44,000	50,00,000	69,96,47,44,000
		Capital	13,15,77,17,000	15,00,00,000	13,30,77,17,000
023.	Water Resources Department	Revenue	11,48,38,37,000	0	11,48,38,37,000
		Capital	55,65,26,33,000	1,16,00,000	55,66,42,33,000
024.	Public Works—Roads and Bridges	Revenue	12,22,39,15,000	0	12,22,39,15,000
		Capital	69,29,69,05,000	3,20,00,00,000	72,49,69,05,000

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
025.	Mineral Resources			
	Revenue	47,70,51,000	7,02,05,00,000	7,49,75,51,000
	Capital	3,08,50,00,000	0	3,08,50,00,000
026.	Culture			
	Revenue	1,83,83,19,000	1,00,000	1,83,84,19,000
	Capital	42,30,03,000	0	42,30,03,000
027.	School Education (Primary Education)			
	Revenue	1,47,78,93,61,000	0	1,47,78,93,61,000
	Capital	5,70,67,35,000	0	5,70,67,35,000
028.	State Legislature			
	Revenue	96,39,29,000	61,85,000	97,01,14,000
029.	Law and Legislative Affairs			
	Revenue	17,60,21,09,000	1,83,16,84,000	19,43,37,93,000
	Capital	1,87,04,00,000	0	1,87,04,00,000
030.	Rural Development			
	Revenue	10,65,55,54,000	4,81,000	10,65,60,35,000
	Capital	29,87,50,04,000	0	29,87,50,04,000
031.	Planning Economics and Statistics			
	Revenue	87,79,49,000	60,000	87,80,09,000
	Capital	1,70,94,00,000	0	1,70,94,00,000
032.	Public Relations			
	Revenue	4,47,57,85,000	10,000	4,47,57,95,000
	Capital	2,50,00,000	0	2,50,00,000
033.	Tribal Welfare			
	Revenue	59,86,14,07,000	5,50,000	59,86,19,57,000
	Capital	15,06,09,96,000	0	15,06,09,96,000
034.	Social Justice and disabled person welfare			
	Revenue	8,63,19,51,000	1,80,000	8,63,21,31,000
035.	Micro, Small & Medium Enterprises			
	Revenue	7,83,43,33,000	1,000	7,83,43,34,000
	Capital	2,68,50,03,000	0	2,68,50,03,000

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
	Capital	70,00,00,000	0	70,00,00,000
036.	Transport			
	Revenue	92,30,37,000	2,40,000	92,32,77,000
	Capital	20,00,01,000	0	20,00,01,000
037.	Tourism			
	Revenue	1,23,33,67,000	1,20,000	1,23,34,87,000
	Capital	1,06,00,02,000	0	1,06,00,02,000
038.	Ayush			
	Revenue	4,58,20,23,000	10,00,000	4,58,30,23,000
	Capital	23,20,01,000	0	23,20,01,000
039.	Food, Civil Supplies and Consumer Protection			
	Revenue	15,38,45,56,000	1,25,000	15,38,46,81,000
	Capital	2,00,05,000	0	2,00,05,000
040.	Other expenditure pertaining to School Education Department (excluding Primary Education)			
	Revenue	29,61,40,71,000	30,00,000	29,61,70,71,000
	Capital	3,71,75,94,000	0	3,71,75,94,000
041.	Expenditure pertaining to Simhast, 2016			
	Revenue	1,000	0	1,000
042.	Bhopal Gas Tragedy Relief and Rehabilitation			
	Revenue	1,15,43,50,000	1000	1,15,43,51,000
	Capital	18,99,02,000	0	18,99,02,000
043.	Sports and Youth Welfare			
	Revenue	1,40,95,10,000	5,00,000	1,41,00,10,000
	Capital	59,27,32,000	0	59,27,32,000
044.	Higher Education			
	Revenue	19,11,90,78,000	10,00,000	19,12,00,78,000
	Capital	4,30,86,00,000	0	4,30,86,00,000
045.	Minor Irrigation Works			
	Revenue	76,41,30,000	0	76,41,30,000
	Capital	86,45,39,000	4,00,000	86,49,39,000

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
046.	Science and Technology	Revenue	1,85,71,89,000	0	1,85,71,89,000
		Capital	61,00,03,000	0	61,00,03,000
047.	Technical Education, Skill Development and Employment.	Revenue	12,91,98,80,000	6,00,000	12,92,04,80,000
		Capital	3,74,08,03,000	0	3,74,08,03,000
048.	Narmada Valley Development	Revenue	17,64,66,000	0	17,64,66,000
		Capital	33,04,86,21,000	35,00,000	33,05,21,21,000
049.	Scheduled Caste Welfare	Revenue	12,21,50,28,000	10,00,000	12,21,60,28,000
		Capital	2,28,20,03,000	0	2,28,20,03,000
050.	Horticulture and Food Processing	Revenue	9,91,30,62,000	1,20,000	9,91,31,82,000
		Capital	1,00,00,00,000	0	1,00,00,00,000
051.	Spirituality	Revenue	88,32,88,000	50,000	88,33,38,000
		Capital	10,00,00,000	0	10,00,00,000
052.	Medical Education	Revenue	12,99,36,05,000	0	12,99,36,05,000
		Capital	10,10,40,34,000	0	10,10,40,34,000
053.	Financial assistance to Three Tier Panchayati Raj Institutions	Revenue	2,69,38,66,36,000	0	2,69,38,66,36,000
		Capital	1,36,80,01,000	0	1,36,80,01,000
054.	Agricultural Research and Education	Revenue	1,60,92,16,000	0	1,60,92,16,000
055.	Women and Child Development	Revenue	51,62,03,57,000	15,00,000	51,62,18,57,000
		Capital	1,30,52,08,000	0	1,30,52,08,000

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
056.	Cottage and Rural Industry			
	Revenue	1,68,07,17,000	60,000	1,68,07,77,000
	Capital	2,01,60,000	0	2,01,60,000
057.	Externally Aided Projects pertaining to Water Resources Department			
	Capital	1,000	0	1,000
058.	Expenditure on Relief on account of Natural Calamities and Scarcity			
	Revenue	23,82,98,27,000	0	23,82,98,27,000
	Capital	1,80,00,000	0	1,80,00,000
059.	Externally aided Projects pertaining to Rural Development Department			
	Capital	14,00,00,00,000	0	14,00,00,00,000
060.	Expenditure pertaining to District Plan Schemes			
	Revenue	44,65,00,000	0	44,65,00,000
	Capital	2,87,58,33,000	0	2,87,58,33,000
061.	Expenditure pertaining to Bundelkhand package			
	Revenue	2,73,08,000	0	2,73,08,000
	Capital	10,000	0	10,000
062.	Panchayat			
	Revenue	2,11,40,77,000	72,000	2,11,41,49,000
063.	Minority Welfare			
	Revenue	27,23,68,000	0	27,23,68,000
	Capital	6,00,00,000	0	6,00,00,000
064.	Financial assistance to Urban bodies			
	Revenue	74,76,11,85,000	6,02,17,00,000	80,78,28,85,000
	Capital	57,17,30,000	0	57,17,30,000
065.	Aviation			
	Revenue	37,24,45,000	0	37,24,45,000
	Capital	70,50,01,000	0	70,50,01,000

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
066.	Welfare of Backward Classes			
	Revenue	7,61,79,81,000	0	7,61,79,81,000
	Capital	26,74,02,000	0	26,74,02,000
067.	Public Works-Buildings			
	Revenue	6,70,88,95,000	3,00,00,000	6,73,88,95,000
	Capital	1,72,30,03,000	0	1,72,30,03,000
068.	New and Renewable Energy			
	Revenue	2,71,21,91,000	0	2,71,21,91,000
069.	Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribe Welfare			
	Revenue	24,51,11,000	0	24,51,11,000
	Capital	7,00,00,000	0	7,00,00,000
070.	Overseas Indian			
	Revenue	90,93,000	0	90,93,000
071.	Environment			
	Revenue	35,14,42,000	0	35,14,42,000
	Capital	40,00,000	0	40,00,000
072.	Happiness			
	Revenue	2,000	0	2,000
	Total-Revenue —	16,37,59,07,74,000	1,68,45,97,07,000	18,06,05,04,81,000
	Total-Capital —	3,78,60,95,28,000	1,51,39,88,73,000	5,30,00,84,01,000
	Grand Total —	20,16,20,03,02,000	3,19,85,85,80,000	23,36,05,88,82,000